

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 357]

नई दिल्ली, बुधवार, जूलाई 26, 1972/श्रावण 4, 1894

No. 357]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 1972/SRAVANA 4, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDER

New Delhi, the 26th July 1972

S. O. 512 (E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S. O. 3792, dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all their language versions to be of the description specified against each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35mm	Name of the Applicant	Name or the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1	Indian News Review No. 1235	202.38m	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.	Film dealing with news and current events.	

1	2	3	4	5	6
2	Indian News Review No. 1238	241-40m	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Film dealing with news and current events.
3	Indian News Review Mo. 1239.	221-28 m	Do.		Do.
4	From Dawn to Dusk. Capt. Mulla(M.V.C.)	281-00 m 198-00m	M/s Blaze Film Enterprises, Blaze Minnet, Encharistic. Congress Building, Bombay-1, Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Documentary Film intended for educational pur- poses.

[No. F. 28/1/72—F (P) App. 1697.]

A. N. DAWESAR, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1972

एस० ओ० 512 (अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एम० ओ० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म मलहा-कार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपांतरों सहित जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धि फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकु- मैत्री फिल्म है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(1)	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1235	202.38 मीटर	फिल्मज प्रभाग, सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26	भारत समाचार और साम- यिक घटनाओं की फिल्म	—तथैव—
(2)	भारतीय समाचार	241-40			—तथैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(3)	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1239	221-28 मीटर	फिल्मज प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26	समाचार और साम- यिक घटनाओं की फिल्म	
(4)	फाम डान टू डस्क	281.00 मीटर	मैसर्स ब्लेज फिल्मज एन्- टर प्राइजेज ब्लेज माइन्सूट इयूचरिस्टिक कांग्रेस विलडिंग, बम्बई-1	आकुमैन्ट्री फिल्म	
(5)	कैप्टन मुल्ला (म०व०स०)	198-00 मीटर	फिल्मज प्रभाग भारत सरकार 24-पैडर रोड, बम्बई-26	शिक्षा सम्बन्धि फिल्म	

[संख्या फ० 23/1/72-एफ पी परिशिष्ट 1697]

अमर नाथ दवेसर, अवर सचिव ।

